

**थाना तिलहर पुलिस द्वारा करीब 02 लाख रुपये कीमत की 01 किलो ग्राम अफीम के साथ
02 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार, ट्राई स्कूटर बरामदा**

एस. आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान व त्यौहारों के मद्देनजर थाना क्षेत्रों में जनपदीय थाना पुलिस द्वारा रखी जा रही सतर्क दृष्टि के क्रम में, श्रीमती अपर्णा गौतम अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में, श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के पर्यवेक्षण में व दीपक शुक्ला प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर के कुशल नेतृत्व में थाना तिलहर पुलिस टीम द्वारा **01 किलो ग्राम (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 02 लाख रुपये)** के साथ 02 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.11.20 को प्रभारी निरीक्षक थाना तिलहर मय थाना पुलिस टीम के थाना क्षेत्र में अभियान के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रोकथाम जुर्म जारायम में मामूर थी कि चैकिंग के दौरान निगोही रोड पर डभौरा गांव के पास समधाना तिराहा पर अमर सिंह ट्राईस्कूटर पर अफीम की बिक्री कर रहा था वही मौके पर अभियुक्त भूपेन्द्र वर्मा द्वारा अमर सिंह उक्त से अफीम क्रय की गयी जा रही थी मौके से इन दोनों व्यक्तियों के कब्जे से 500-500 ग्राम अफीम सहित समय 11.15 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 02 लाख रुपये है। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर 1.मु0अ0स0 883/20 बनाम अमर सिंह, 2. मु0अ0स0 884/20 बनाम भूपेन्द्र वर्मा धारा 8/17 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अमर सिंह पुत्र हाकिम सिंह निवासी जौहना थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
2. भूपेन्द्र वर्मा पुत्र जगतपाल निवसी भौंती थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर

पंजीकृत अभियोग का विवरण: -

1. मु0अ0स0 883/20 धारा 8/17 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम बनाम अमर सिंह
2. मु0अ0स0 884/20 धारा 8/17 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम बनाम भूपेन्द्र वर्मा

बरामदगी का विवरण -

1. अमर सिंह के कब्जे से 500 ग्राम स्मैक
2. भूपेन्द्र वर्मा के कब्जे से 500 ग्राम स्मैक
3. एक ट्राई स्कूटर

कुल बरामद अफीम 1 किलो ग्राम, अफीम की कीमत (अन्तराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 02 लाख रुपये)

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 विनोद कुमार मौर्य थाना तिलहर शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 कुलदीप सिंह थाना तिलहर शाहजहाँपुर।
3. का0 477 रुपेन्द्र चौधरी थाना तिलहर शाहजहाँपुर।
4. का0 408 देवेन्द्र कुमार थाना तिलहर शाहजहाँपुर।
5. का0 2257 रोहित सांगवान थाना तिलहर शाहजहाँपुर।